

आरक्षण नीति की समीक्षा करे सरकार : चन्द्र प्रकाश कौशिक

By : INVC Team Published On : 23 Feb, 2016 09:04 PM IST

✘आई एन वी सी न्यूज़ नई दिल्ली , RSS की जननी अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश कौशिक राष्ट्रीय महामंत्री मुन्ना कुमार शर्मा एवं राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी ने केंद्र की राजग सरकार से आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की है प् हिन्दू महासभा के नेताओं ने कहा है कि वर्तमान आरक्षण नीति से जरूरतमंदों व गरीबों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है प् आरक्षण का लाभ तो वे लोग ले रहे हैं जिनमें यह लाभ नहीं मिलना चाहिए प् एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा बार बार आरक्षण का लाभ प्राप्त किया जा रहा है ! पर गरीब परिवार तथा जरूरतमंद लोग इसके लाभ से वंचित हैं प् इसलिए पूरी आरक्षण नीति की समीक्षा की शीघ्र आवश्यकता है प् अखिल भारत हिन्दू महासभा के नेताओं ने केंद्र सरकार से आरक्षण नीति की समीक्षा करने के लिए गैर राजनितिक व्यक्तियों की एक समिति बनाने व आरक्षण नीति पर राष्ट्रवादी व आवश्यक निर्णय शीघ्र लेने की मांग की है हिन्दू महासभा ने इस विषय में आर एस एस प्रमुख मोहन भागवत के विचारों का समर्थन किया है एवं कहा है कि गैर राजनीतिक समिति उस बात का निर्णय करे कि आरक्षण का वास्तविक हकदार कौन है और कौन नहीं है प् आरक्षण का आधार केवल जाति नहीं होनी चाहिए प् बल्कि सभी जाति एवं वर्गों के गरीब व जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिलना चाहिए ! हिन्दू महासभा नेताओं ने देश के राजनीतिक दलों का आह्वान किया है कि राष्ट्रहित में वोटबैंक की राजनीति बंद करें प् आरक्षण नीति केवल जरूरतमंदों के लाभ के लिए बनाएं प् अन्यथा हरियाणा के जाट आंदोलन की तरह ही देश में बार.बार आंदोलन होते रहेंगे और देश की एकता . अखंडता को नुकसान होता रहेगा ।

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/आरक्षण-नीति-की-समीक्षा-कर/>